



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र 1931 (श0)  
(सं0 पटना 133) पटना, शुक्रवार, 17 अप्रील 2009

(सं0 2/सी0-10189/08 का0 344)  
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

29 जनवरी 2009

श्री मुमुक्षु कुमार चौधरी, कोटि क्रमांक-1227/08, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोविन्दपुर, नवादा को इन्दिरा आवास के आवंटन में गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरतने, प्रखंड की रोकड़ पंजी का संधारण चार महीने तक नहीं करने, इन्दिरा आवास मद में अवशेष राशि का भ्रामक प्रतिवेदन भेजकर वित्तीय अनियमितता करने तथा लापरवाही का परिचय देने आदि प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 के तहत तत्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन अवधि में श्री चौधरी का मुख्यालय आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3. निलंबन अवधि में श्री चौधरी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

**आदेश:**—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति श्री चौधरी एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र प्रसाद,  
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 133-571+10-डी0टी0पी0।